



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11022025-260907  
CG-DL-E-11022025-260907

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 95]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 11, 2025/माघ 22, 1946

No. 95]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 11, 2025/MAGHA 22, 1946

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2025

सा.का.नि. 128(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय, सचिवालय सुरक्षा संगठन, सचिवालय सुरक्षा बल में सिपाही/धोबी और सिपाही/नाई के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सचिवालय सुरक्षा संगठन, सचिवालय सुरक्षा बल सिपाही/धोबी और सिपाही/नाई भर्ती नियम, 2024 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- लागू होना-** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:-** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वे होंगे, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विदिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि:** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

## 5. निरर्हता :वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. सिपाही धोबी (केवल पुरुष)।	7* (2024)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200/रु.)।	लागू नहीं होता।	18 और 23 वर्ष की आयु के बीच  (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।)  <b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य।  2. शारीरिक मानदंड:-  (क) ऊंचाई:  (i) साधारण प्रवर्ग के अभ्यर्थी के लिए -170 सेंटीमीटर  (ii) गढ़वालियों, कुमांऊनी, गोरखाओं, डोगरों, मराठों के प्रवर्गों में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए और असम, हिमाचल प्रदेश, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के कश्मीर क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के लेह क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए – 165 सेंटीमीटर  (iii) पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से

				<p>निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p>	<p>आने वाले अभ्यर्थियों के लिए -162.5 सेंटीमीटर</p> <p>(iv) यथाउपरोक्त पूर्वोत्तर राज्यों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों से आने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए -160 सेंटीमीटर</p> <p>(v) पूर्वोत्तर राज्यों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों से भिन्न अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए -162.5 सेंटीमीटर</p> <p>(ख) सीमा:</p> <p>(i) साधारण प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए:-</p> <p>बिना फुलाए - 80 सेंटीमीटर</p> <p>फुलाकर -85 सेंटीमीटर</p> <p>(ii) पूर्वोत्तर राज्यों से भिन्न पहाड़ी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए:-</p> <p>बिना फुलाए - 78 सेंटीमीटर</p> <p>फुलाकर -83 सेंटीमीटर</p> <p>(iii) सभी राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए:-</p> <p>बिना फुलाए - 76 सेंटीमीटर</p> <p>फुलाकर -81 सेंटीमीटर</p> <p>(iv) पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए:-</p> <p>बिना फुलाए - 77 सेंटीमीटर</p> <p>फुलाकर -82 सेंटीमीटर</p> <p>(ग) भार: चिकित्सा मानदंड के अनुसार ऊंचाई और आयु के अनुपातिका।</p>
--	--	--	--	--	---

						<p>3. चिकित्सा मानदंड:-</p> <p>(क) दृष्टि: बिना सुधार किए हुए अर्थात् बिना चश्मा पहने दोनों आंखों की आंख दृष्टि 6/6 होगी;</p> <p>(ख) अभ्यर्थियों को अंतर्वक्र जानु, सपाटपांव, बड़ी हुई पसली या वक्र दृष्टि का नहीं होना चाहिए और उनकी उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए और उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और ऐसे शारीरिक दोषों से मुक्त होना चाहिए जिनसे उनके कर्तव्यों के दक्ष निष्पादन में व्यवधान की संभावना हो।</p> <p>4. अभ्यर्थी को शारीरिक मानदंड परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा, व्यवसाय परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा में अर्हित होना चाहिए।</p>
--	--	--	--	--	--	---

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: सीधे भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।  <b>टिप्पण:</b> परीवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम तीन मास की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	सीधे भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
लागू नहीं होता।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. सिपाही नाई (केवल पुरुष)।	3* (2024)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200/रु.)।	लागू नहीं होता।	18 और 23 वर्ष को आयु के बीच  (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।)  <b>टिप्पण:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य।  2. शारीरिक मानदंड:-  (क) ऊंचाई:  (i) साधारण प्रवर्ग के अभ्यर्थी के लिए -170 सेंटीमीटर  (ii) गढ़वालियों, कुमांऊनी, गोरखाओं, डोगरों, मराठों के प्रवर्गों में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए और असम, हिमाचल प्रदेश, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के कश्मीर क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के लेह क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए - 165 सेंटीमीटर  (iii) पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए -162.5 सेंटीमीटर  (iv) यथाउपरोक्त पूर्वोत्तर राज्यों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों से आने वाले अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए -160 सेंटीमीटर  (v) पूर्वोत्तर राज्यों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों से भिन्न अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए -162.5 सेंटीमीटर  (ख) सीमा:  (i) साधारण प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए:-  बिना फुलाए - 80 सेंटीमीटर

				<p>प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p>	<p>फुलाकर -85 सेंटीमीटर</p> <p>(ii) पूर्वोत्तर राज्यों से भिन्न पहाड़ी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए:-</p> <p>बिना फुलाए - 78 सेंटीमीटर</p> <p>फुलाकर -83 सेंटीमीटर</p> <p>(iii) सभी राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए:-</p> <p>बिना फुलाए - 76 सेंटीमीटर</p> <p>फुलाकर -81 सेंटीमीटर</p> <p>(iv) पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए:-</p> <p>बिना फुलाए - 77 सेंटीमीटर</p> <p>फुलाकर -82 सेंटीमीटर</p> <p>(ग) भार: चिकित्सा मानदंड के अनुसार ऊंचाई और आयु के अनुपातिक।</p> <p>3. चिकित्सा मानदंड:-</p> <p>(क) दृष्टि: बिना सुधार किए हुए अर्थात् बिना चश्मा पहने दोनों आंखों की आंख दृष्टि 6/6 होगी;</p> <p>(ख) अभ्यर्थियों को अंतर्वक्र जानु, सपाट पांव, बढी हुई पसली या वक्र दृष्टि का नहीं होना चाहिए और उनकी उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए और उन्हें अच्छे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और ऐसे शारीरिक दोषों से मुक्त होना चाहिए जिनसे उनके कर्तव्यों के दक्ष निष्पादन में व्यवधान की संभावना हो।</p> <p>4. अभ्यर्थी को शारीरिक मानदंड परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा, व्यवस्था परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा में अर्हित होना चाहिए।</p>
--	--	--	--	--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: सीधे भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।  <b>टिप्पण:</b> परीवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम तीन मास की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
लागू नहीं होता।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए 12018/01/2023-एसएसओ]

राजीव कुमार, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th February, 2025

**G.S.R. 128(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Constable/Washerman and Constable/Barber in the Secretariat Security Force, Secretariat Security Organisation, Ministry of Home Affairs, namely:

**1. Short title and commencement.** -(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Secretariat Security Organization, Secretariat Security Force Constable/Washerman and Constable/Barber Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.** These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Number of posts,** classification and level in pay matrix. The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

**4. Method of recruitment,** age-limit and other qualifications, etc. The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**5. Disqualifications.** - No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**6. Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**7. Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### SCHEDULE

Name of Post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non- selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.Constable/ Washerman (Male only).	7*(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level- 2 in the pay matrix (Rs.19900-63200).	Not applicable.

#### Age -limit for direct recruits.

(6)

Between 18 to 23 years of age(Relaxable for the departmental candidates upto the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

**Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and The Kashmir region of UT of J&K and Leh region of UT of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

#### Educational and other qualifications required for direct recruits.

(7)

1. Matriculation pass or equivalent from a recognised Board.

2. Physical standards: -

(a)Height:

(i) for the candidate belongings to the General category-170 centimeters;

(ii)for the candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis,

Gorkhas, Dogras, Marathas and Candidates belonging to the States of Assam, Himachal Pradesh, The Kashmir region of UT of J&K and Leh region of UT of Ladakh. -165 centimeters;

(iii) for the candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal

Pradhesh, Manipur,Meghalaya, Mizoram,Nagaland,Sikkim and Tripura-162.5 centimeters;

- (iv) for the candidates belonging to the Schedule Tribes hailing from the North-Eastern states as above and the left-wing Extremism affected Districts- 160 centimeters;
- (v) for the candidates belonging to the Scheduled Tribes other than North-Eastern-162.5 centimeters. States and Left-Wing Extremism Affected Districts.
- (b) Chest:
- (i) for the candidates belonging to the General category: -  
Unexpanded-80 centimeters;  
Expanded-85 centimeters;
- ii) for the candidates belonging to hill area other than North-Eastern States: -  
Unexpanded-78 centimeters;  
Expanded -83 centimeters;
- (iii) for the candidates belonging to the Scheduled Tribes: -  
Unexpanded -76 centimeters;  
Expanded -81 centimeters;
- (iv) for the candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura: -  
Unexpanded -77 centimeters;  
Expanded -82 centimeters;
- (c) Weight: Proportionate to height and age as per medical standards.
3. Medical standards: -
- (a) Eye sight: Both eye sights should be 6/6 without correction. without wearing glass.
- (b) candidates must not suffer from knock knees, flat foot, varicose veins or squint in the eyes and shall possess high colour vision and they must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties.
4. the candidate must qualify physical standard test, physical efficiency test, written test, trade test and medical test.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years. <b>Note:</b> There shall be a mandatory induction training of at least three months duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Constable/ Barber (Male only).	3*(2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level- 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200).	Not applicable.

(6)
Between 18 to 23 years of age (Relaxable for the departmental candidates upto the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
<b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

(7)
<p>1. Matriculation pass or equivalent from a recognised Board.</p> <p>2. Physical standards: -</p> <p>(a) Height:</p> <p>(i) for the candidate belonging to the General category-170 centimeters;</p> <p>(ii) for the candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and Candidates belonging to the States of Assam, Himachal Pradesh, The Kashmir region of UT of J&amp;K and Leh region of UT of Ladakh-165 centimeters;</p> <p>(iii) for the candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura-162.5 centimeters;</p> <p>(iv) for the candidates belonging to the Schedule Tribes hailing from the North-Eastern states as above and the left-wing Extremism affected District- 160 centimeters;</p> <p>(v) for the candidates belonging to the Scheduled Tribes other than North-Eastern - 162.5 centimeters States and Left-Wing Extremism Affected Districts.</p> <p>(b) Chest:</p> <p>(i) for the candidates belonging to the General category: -</p> <p>Unexpanded - 80 centimeters;</p> <p>Expanded - 85 centimeters;</p> <p>(ii) for the candidates belonging to hill area other than North-Eastern States: -</p> <p>Unexpanded - 78 centimeters;</p> <p>Expanded - 83 centimeters;</p> <p>(iii) for the candidates belonging to the Scheduled Tribes: -</p> <p>Unexpanded - 76 centimeters;</p> <p>Expanded - 81 centimeters;</p> <p>(iv) for the candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura: -</p> <p>Unexpanded - 77 centimeters;</p> <p>Expanded - 82 centimeters;</p> <p>(c) Weight: Proportionate to height and age as per medical standards.</p> <p>3. Medical standards: -(a) Eye sight: Both eye sights should be 6/6 without correction. without wearing glass.</p> <p>(b) candidates must not suffer from knock knees, flat foot, varicose veins or squint in the eyes and shall possess high colour vision and they must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties.</p> <p>4. the candidate must qualify physical standard test, physical efficiency test, written test, trade test and medical test.</p>

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years. <b>Note:</b> There shall be a mandatory induction training of at least three months duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

[F. No. A.12018/01/2023-SSO-II]

RAJEEV KUMAR, Jt. Secy.